

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय



कृषि-मौसम प्रक्षेत्र इकाई, वानिकी महाविद्यालय
रानीचौरी - 249199 टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)



फोन नंबर: 01376-252 150

कृषि-मौसम परामर्श सेवा बुलेटिन, जनपद - टिहरी गढ़वाल

√ उपमहानिदेशक (कृषि मौसम विज्ञान), भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे
√ कृषि एकांश, आकाशवाणी, नजीबाबाद

√ निदेशक, मौसम केंद्र, देहरादून
√ हँवलवाणी सामुदायिक रेडियो, चम्बा, टिहरी गढ़वाल

www.imdagrimet.gov.in, www.uuhf.ac.in

वर्ष: 23 अंक: 34

बुलेटिन अवधि:- 01 से 05 मई, 2019

दिन:- मंगलवार दिनांक :- 30 अप्रैल, 2019

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान आधारित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के अंतर्गत मौसम केंद्र, देहरादून से प्राप्त मौसम पूर्वानुमानित आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड के टिहरी जनपद में आगामी पांच दिनों निम्न मौसम रहने की सम्भावना व्यक्त की जाती है:-

मौसम प्राचल	मौसम पूर्वानुमान अवधि				
	01-05-2019 (30 अप्रैल सुबह 08:30 बजे से 01 मई सुबह 08:30 बजे तक)	02-05-2019 (01 मई सुबह 08:30 बजे से 02 मई सुबह 08:30 बजे तक)	03-05-2019 (02 मई सुबह 08:30 बजे से 03 मई सुबह 08:30 बजे तक)	04-05-2019 (03 मई सुबह 08:30 बजे से 04 मई सुबह 08:30 बजे तक)	05-05-2019 (04 मई सुबह 08:30 बजे से 05 मई सुबह 08:30 बजे तक)
वर्षा (मि.मी.)	2 मिमी. (बहुत हल्की)	10 मिमी. (हल्की)	15 मिमी. (मध्यम)	5 मिमी. (हल्की)	3 मिमी. (हल्की)
आसमान में बादल आच्छादन (ओक्टा: 0 से 8) 0 ओक्टा (पूरी तरह से साफ आसमान) 8 ओक्टा (पूरी तरह बादलों से घिरा आसमान)	3 ओक्टा (कुछ भाग बादल)	5 ओक्टा (मुख्यतः बादल)	5 ओक्टा (मुख्यतः बादल)	5 ओक्टा (मुख्यतः बादल)	2 ओक्टा (मुख्यतः साफ आसमान)
अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	27	26	25	24	25
न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	14	14	13	12	13
अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता (%)	75	80	85	85	80
न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता (%)	40	45	50	50	40
वायु की औसत गति (कि.मी./घंटा)	6	8	8	10	10
वायु की दिशा	उत्तर-पूर्व	दक्षिण-पूर्व	उत्तर-पूर्व	दक्षिण-पूर्व	दक्षिण-पूर्व
1-4 मई तक बादल छाये रहने,हल्की/मध्यम बारिश केसाथ ओलावृष्टि होने, औसतन 8-10 किमी०/घंटा की गति से हवा चलने का पूर्वानुमान है।					

कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल (समुद्रतल से ऊँचाई-1827 मीटर)के प्रेक्षण अनुसार विगत सप्ताह (24 से 30 अप्रैल 2019 सुबह 08:30 तक); मुख्यतः साफ मौसम रहने के साथ बारिश नहीं हुई। दिन का अधिकतम तापमान 23.7 से 27.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11.4 से 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 07:16 बजे सापेक्षित आर्द्रता 42 से 74 प्रतिशत तथा अपराह्न 14:16 बजे को 19 से 61 प्रतिशत के मध्य रही। हवा की औसत गति 2.6 से 5.0 किमी० प्रति घंटा रही। सप्ताह के दौरान हवा मुख्यतः उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से चली।

सामान्यीकृत अंतर वानस्पतिक सूचनांक (Normalized Difference Vegetation Index) दिनांक 08-14 अप्रैल, 2019 के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि ओज की स्थिति औसत (NDVI value 0.25 to 0.4) है।

मानकीकृत वर्षा सूचनांक(SPI_अवधि दिनांक 21 मार्च से 17 अप्रैल, 2019)के आधार पर जनपद में हल्के गीले(Mildly wet_SPI Value 0.0 to 0.99) की स्थिति रही।

मौसम आधारित कृषि सलाह

फसल	अवस्था	कृषि मौसम सलाह
गेंहू, जौ, मसूर आदि (घाटी क्षेत्र)	दाना/परिपक्वता	आगामी दिनों बारिश व ओलावृष्टि की सम्भावना को ध्यान रखते हुए सलाह है कि परिपक्व फसल की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख दें।
गेंहू, जौ (ऊंचाई क्षेत्र)	दूध भरना/ दाना बनना	सिंचाई व रसायनों का प्रयोग टाल दें। रोग ग्रसित व अवांछित पौधों को निकाल दें।
झंगोरा, तोर, (ऊंचाई क्षेत्र_असिंचित)	अंकुरण	अंकुरण के 2-3 सप्ताह बाद प्रथम निराई करें।
प्याज, लहसुन	बल्ब वृद्धि	खेत में वर्षा जल का भराव न होने दें। रसायनों का प्रयोग टाल दें।
अदरक	बुवाई	बुवाई कार्य कुछ दिनों के लिए टाल दें।
आलू (ऊंचाई क्षेत्र_असिंचित)	वानस्पतिक वृद्धि	पंक्तियों के बीच में सूखी घास की पलवार बिछा दें।
आड़ू, खुबानी, अखरोट	फल बढ़वार	ओलावृष्टि से बचाव हेतु ओला रक्षक जाली का प्रयोग करें। सिंचाई तथा रसायनों का प्रयोग फिलहाल न करें। वर्षा जल भंडारण करें। थालों में सूखी घास की पलवार बिछा दें।
सेब	फल निर्माण	
टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन (घाटी क्षेत्र)	वानस्पतिक बढ़वार	नवरोपित पौधों को लकड़ी/ रस्सी का सहारा देकर सीधा खड़ा रखें व ओलावृष्टि से बचाव हेतु व्यवस्था रखें।
मशरूम उत्पादन	-	हवा की गति को ध्यान रखते हुए सलाह है कि खिडकियों पर महीन जाली व पॉलिथीन लगाकर रखें जिससे कीट अंदर न आ सके।
पशुपालन	-	पशु को बारिश में भीगने से बचा कर रखें। गाय-भैंस में खुरपका-मुंहपका रोग टीकाकरण करवाएं।

नोडल अधिकारी
कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई, रानीचौरी

तकनीकी अधिकारी
कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई, रानीचौरी

महत्वपूर्ण जानकारी: जनपदस्तरीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि मौसम सेवा बुलेटिन सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को जारी की जाती है। मौसम पूर्वानुमान व कृषि मौसम सेवा बुलेटिन को ईमेल, व्हट्सएप्प आदि पर नि:शुल्क प्राप्त करने व फसल पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर फोटोग्राफ को मोबाइल/व्हट्सएप्प नंबर: 9410944889 प्रकाश सिंह नेगी, तकनीकी अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवाए पर भेजकर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं, SMS हेतु मौसम विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन पंजीकरण: <http://imdagrimet.gov.in/farmer/Form.php>